



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 23] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 1983/माघ 20, 1904
सं. 23] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 1983/MAGHA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

व्यापारिक मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1983

सार्वजनिक सूचना सं. 6—ईटीसी (पी एन)/83

विषय :—सूती धागे और टायर कार्ड का निर्यात ।

मि. सं. 2/13/80-ई.1 :—उपयुक्त विषय पर, निर्यात
(नियंत्रण) संशोधन आदेश सं. ई(सी)ओ 1977/एम(257),
दिनांक 9 फरवरी, 1983 की और ध्यान दिलाया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि 5 एस, काउन्ट और इससे
कम काउन्ट के सभी प्रकार के सूती धागे पर लगे निषेध को हटा
दिया जाए । परिणामस्वरूप, 60 एस तक के सूती धागे के
सभी काउन्ट का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन
विशिष्टकृत उच्चतर सीमा के भीतर अनुमति होगा । लेकिन,
60 एस से अधिक के सूती धागे के लिए खुले सामान्य
लाइसेंस-3 के अधीन स्वीकृति दी जाती रहेगी । टायर कार्ड
यार्न के निर्यात के लिए भी खुले सामान्य लाइसेंस-3 के
अधीन स्वीकृति दी जाती रहेगी ।

3. तदनुसार, 1982-83 के लिए आयात-निर्यात नीति
(जिल्द-2) के नीति विवरण की क्रम सं. 69 के सामने दर्शाई

1312 GI/82

गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया
जाएगा :—

प्रनुसूची—1
के भाग "ख"

की श्रम सं.

मद का विवरण

साईस नो. 1

1	2	3
69	सभी काउन्ट में सभी प्रकार का सूती धागा और टायर कार्ड यार्न	निर्यात खुले सामान्य लाई- सेंस-3 के अर्ध न दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुमति होगा ।

4. 60 एस तक के सूती धागे के पोत-लदान की स्वीकृति,
सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा उनके पास पंजीकृत
सविदाओं के सम्बन्ध में पोत-लदान बिना पर किए प्रमाण के
मददे ही दी जाएगी ।

5. 60 एस से अधिक के सूती धागे के सम्बन्ध में निर्यात,
सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी की गई
व्यापार सूचनाओं के अनुसार स्वच्छ रूप से अनुमति होगा और
निर्यातक पोत-लदान की तारीख से 7 दिनों के भीतर निर्यातों के
आंकड़े परिषद् को भेजेंगे ।

6. संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय
के सदस्य राज्यों को पोत-लदान के सम्बन्ध में निर्यात हकबारी

के बारे में आवश्यक घोषणा, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा की जाएगी।

7. निर्यातकों के लिए यह आवश्यक है कि वे 60 एस तक के सूती धागे के किए गए पोन-लदानों के ब्यारे प्रत्येक मास की 10 तारीख तक सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को भेज दें।

रोमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th February, 1983

PUBLIC NOTICE NO. 6—ETC(PN)|83

Subject : Export of Cotton Yarn and Tyre Cord Yarn.

F. No. 2|13|80-E.I.—Attention is invited to export of Cotton Yarn of all types in Counts 5s 1977|AM(257) dated 9th February, 1983 on the above subject.

2. It has been decided to remove the ban on export of Cotton Yarn of all types in Counts 5s and below. Consequently, export of all counts of cotton yarn upto 60s will be allowed under OGL. 3 within specified ceilings. However, cotton yarn above 60s will continue to be allowed freely under OGL. 3. Export of Tyre Cord Yarn will also continue to be allowed under OGL. 3.

3. Accordingly, the existing entry against Sl. No. 69 of the Policy Statement in Volume. II of

Imports and Export Policy 1982-83 shall be substituted by the following : —

Sl. No. as in Part 'B' of Schedule-I	Description of item	Licensing Policy
1	2	3
69	Cotton Yarn of all types in all counts as well as Tyre Cord Yarn	Export will be allowed as provided under OGL. 3

4. Shipment of Cotton Yarn upto 60s shall be allowed only against certification made by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay on the Shipping Bills in respect of contracts registered with them.

5. As regards, Cotton Yarn above 60s, exports will be allowed freely in accordance with the Trade Notices issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay and the exporters shall furnish statistics of exports to the Council within 7 days from the date of the shipment.

6. In respect of shipments to U.S.A. and the EEC Member-States, necessary announcement regarding export entitlements will be made by the Cotton Textiles Export Promotion Council.

7. Exporters are required to submit to the Cotton Textiles Export Promotion Council by the tenth of every month, details of shipments of Cotton Yarn upto 60s effected by them.

ROMA MAZUMDAR,
Chief Controller of Imports and Exports.